


## वी.यू. के अंतर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण एवं ओ.पी.यू आई.वी.एफ तकनीक पर राष्ट्रीय वेबीनार का समापन



जबलपुर, आज दिनांक 19 जून 2021 को पशु जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण एवं ओ.पी.यू आई.वी.एफ आधुनिकतम तकनीकी विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कुलपति जी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ ए.के. मिश्रा चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल भारत सरकार नई दिल्ली ने इस मूल्यवान एवं आधुनिक तकनीकी को आत्मसात कर भारतीय गौ वंशी एवं माहि वंशीय नस्लों की दुग्ध उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि लाए जाने हेतु अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम की संख्या में विशिष्ट अतिथि डॉ. उमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तकनीकी के माध्यम से पशुपालकों की गायों भैंस के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो एवं इससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हों। इसी कड़ी में डॉ श्याम जावर सीईओ जे.के. ट्रस्ट पुणे महाराष्ट्र इस विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में उद्बोधन करते हुए पी.पी.टी प्रस्तुतीकरण व्याख्यान के द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति जी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तकनीकी के माध्यम से गौशालाओं की 8 अवर्णित देसी गायों के भ्रूण से गर्वित हो चुकी हैं भविष्य में भी इस विश्वविद्यालय से विकसित तकनीकों को प्रदेश ग्रामीण अंचल के पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त संचालकगण, अधिष्ठातागण, प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता का निर्वाहन किया इस राष्ट्रीय वेबीनार में देश के विभिन्न राज्यों के कुल 227 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. अजीत प्रताप सिंह, संचालक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र व डॉ. कुश श्रीवास्तव एवं आभार प्रदर्शन डॉ. काजल जाधव, वैज्ञानिक द्वारा किया गया।

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी  
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर